



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान

समाचार पत्र

मेरठ प्रान्त



अनमोल वचन

आप तब तक यह नहीं समझ पाते की आपके लिए कौन महत्वपूर्ण है जब तक आप उन्हें वास्तव में खो नहीं देते ।

महात्मा गाँधी



विद्या भारती मेरठ प्रान्त

- ❶ अखिल भारतीय विषय संयोजक बैठक
- ❷ अखिल भारतीय साधारण सभा
- ❸ साधारण सभा – समीक्षा बैठक
- ❹ नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर कार्यशाला
- ❺ विज्ञान कार्यशाला
- ❻ भारतीय शिक्षा समिति साधारण सभा बैठक
- ❼ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में गोष्ठी
- ❽ नई शिक्षा नीति व पठन पाठन पुनः आरम्भ
- ❾ जिला प्रमुख एवं जिला समन्वयक बैठक
- ❿ विद्यालय आरम्भ
- ⓫ कलाकार सम्मान
- ⓬ इन्स्पायर अवार्ड सम्मानित छात्राएं
- ⓭ ई पत्रिका विमोचन
- ⓮ सुरक्षा मानकों के साथ खुला स्कूल
- ⓯ कबाड़ से जुगाड़
- ⓰ विभिन्न जयंती कार्यक्रम
- ⓱ आजाद हिन्द फ़ौज स्थापना दिवस
- ⓲ मिशन शक्ति
- ⓳ पूर्व छात्र बैठक
- ⓴ साधारण सभा - जन शिक्षा समिति
- ⓵ विश्व शिक्षक दिवस
- ⓶ SESQ ASSESSMENT SCHOOLS REPORT
- ⓷ दशहरा पर्व
- ⓸ पूर्व छात्र को किया सम्मानित
- ⓹



अखिल भारतीय विषय संयोजक बैठक





अखिल भारतीय विषय संयोजको की बैठक प्रारंभ कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बदले हुए परिवेश में अखिल भारतीय विषय संयोजको की सरस्वती शिशु मंदिर नेहरू नगर गाजियाबाद में प्रारंभ हुई, जिसमें सम्पूर्ण देश से पधारे हुए विषय संयोजक उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र में विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष श्री डी० रामकृष्ण राव, अ० भा० संगठन मंत्री श्रीमान काशीपति जी, अ० भा० महामंत्री श्री श्रीराम आरावकर जी के सहित अखिल भारतीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

अखिल भारतीय विजय संयोजक की बैठक का समापन दो दिवसीय विशेष संयोजक की बैठक का आज 2 अक्टूबर 2020 की सायं मेला में समापन हो गया 2 दिन तक विभिन्न विषयों के संयोजको ने अपने अपने विषय के अब तक हुए क्रियाकलापों का प्रस्तुतीकरण किया गया जैसे खेल परिषद शिशु वाटिका बालिका शिक्षा जनजाति क्षेत्र की शिक्षा सीमावर्ती क्षेत्र सेवा व संस्कार केंद्र शारीरिक संस्कृत योग शिक्षा आदि।

समापन सत्र में अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री यतींद्र जी ने आग्रह किया कि वर्तमान परिस्थिति में हमारे प्रत्यक्ष मिलने जुलने का क्रम कम हो गया है प्रभास का कोई विकल्प नहीं है अपने अध्यक्षीय आशीष में अखिल भारतीय अध्यक्ष डी राम कृष्ण राव जी ने अपने विषयों का क्रियान्वयन हेतु योजना बनाकर कार्य को गति बढ़ाने का आह्वान किया।


अखिल भारतीय साधारण सभा



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की साधारण सभा की बैठक आज दिनांक 3/10/ 2020 को सायं काल सरस्वती शिशु मंदिर नेहरू नगर गाजियाबाद में शुभारंभ किया गया महामंत्री श्री राम आरावकर जीने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा साधारण सभा के उपरान्त संस्थान संबंधित जो बंधु भगिनी दिवंगत हो गए हैं उनके प्रति साधारण सभा द्वारा शोक संवेदना प्रकट की और दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की।

केंद्रीय कार्यालय सचिव श्री विजय माथुर जी ने गत कार्रवाई का वाचन किया और सर्व सम्मति से उनकी की पुष्टि की गई। अखिल भारतीय मंत्री श्री अवनीश भटनागर जी ने अपने बीज वक्तव्य में आगामी सत्रों में किए जाने वाले विचारणीय बिंदुओं को सभी के समक्ष रखा उन्होंने कहा कि वर्तमान चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ना है इसका चिंतन आने वाले सत्रों में करेंगे।





साधारण सभा – समीक्षा बैठक



नई शिक्षा नीति 2020 विषय पर कार्यशाला

लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती इण्टर कॉलेज मुज़फ्फरनगर में आयोजित कार्यशाला का शुभारम्भ जिला विद्यालय निरीक्षक गजेन्द्र कुमार, प्रधानाचार्य डॉ विकास कुमार व प्रधानाचार्य सतीश उपाध्याय ने माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक गजेन्द्र कुमार ने कहा कि नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा, प्रयोगात्मक कार्यों, क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यालयों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कर विभिन्न क्षमता के छात्र छात्राओं के बीच के डिजिटल अन्तर को कम किया जाएगा, प्रोफेशनल व श्रेष्ठ नागरिक निर्माण के लिए शिक्षकों का योगदान हमेशा ही अहम होता है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि सनातन धर्म इण्टर कॉलेज मीरापुर के प्रधानाचार्य विशिष्ट प्रतिभा के धनी है, प्रदेश के माध्यमिक के एक मात्र शिक्षक है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार इस वर्ष प्राप्त हुआ है, उन्होंने राष्ट्र में जिला मुज़फ्फरनगर व माध्यमिक शिक्षा विभाग का नाम रोशन किया है। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा डॉ विकास कुमार, राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित प्रधानाचार्य कंचनप्रभा शुक्ला, सदर ब्लॉक के नॉडल अधिकारी प्रधानाचार्य बृजेश कुमार, भूपेन्द्र कुमार, विपिन त्यागी, सुचित्रा सैनी, प्रधानाचार्य सुदीप कुमार, प्रधानाचार्य प्रवेन्द्र दहिया, प्रधानाचार्य सतीश

शिक्षिका वन्दना शर्मा ,सेवानिवृत्त शिक्षक राधेश्याम सिंघल, बघरा ब्लॉक के प्रधानाध्यापक सरताज अली ,प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार , प्रधानाचार्य तरसपाल पुण्डीर, चरथावल ब्लॉक के प्रधानाचार्य मनोज कुमार, प्रवीण कुमार ,आशीष द्विवेदी, रामअवतार शर्मा , पुरकाजी ब्लॉक के प्रधानाचार्य सुधीर त्यागी, यशपाल पुण्डीर ,मदन पाल , संजय भटनागर , खतौली ब्लॉक के उमा रानी , अनिल शास्त्री , अंजुम परवीन शाहपुर ब्लॉक के प्रधानाचार्य तेजेन्द्र सिंह ,अनुराधा पंवार बुढाना ब्लॉक के प्रधानाचार्य नीलेश वशिष्ठ , बी एस भारद्वाज , विनय यादव , अंशु सिंह ,रामपाल सिंह ,जानसठ ब्लॉक के प्रधानाचार्य समुंद्रसेन, नीरज कुमार , रणबीर सिंह , मीनाक्षी , शिक्षक अभिषेक गर्ग मोरना ब्लॉक के प्रधानाचार्य राकेश कुमार ,डॉ ब्रजभूषण शर्मा, ललित मोहन गुप्ता व सहायक अध्यापक सन्दीप को शॉल ओढ़ाकर व प्रशस्ती पत्र दे सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रवक्ता वंदना शर्मा ने किया प्रधानाचार्य सतीश उपाध्याय ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया ।



विज्ञान कार्यशाला

विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध सरस्वती शिशु/ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नगली अमरोहा में आज 10-10-2020 दिन शनिवार को विषयशः कार्यशाला के अंतर्गत विज्ञान विषय का प्रस्तुतिकरण विद्यालय के आचार्य अमित जी के द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत पर्यावरण, वायु का स्थान घेरना, पृथ्वी पर मानव जीवन के विकास से संबंधित अनेक बिंदुओं विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यशाला के अंत में प्रधानाचार्य श्री दिवाकर पांडे जी ने विज्ञान के अनेक अनसुलझे रहस्य पर चर्चा की तथा कहा कि अंधविश्वास को समाप्त करने में भी विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ।



भारतीय शिक्षा समिति साधारण सभा बैठक



Sadharan Sabha Baithak at Dhampur today is held today at Dhampur. Sitting from left to right: Shri Domeswar Sahuji (Kshetriya Sangthan Mantri) Shri Vishesh Guptaji, President, Bhartiya Shiksha Samiti, Shri Arun Khandelwalji, Secretary, Bhartiya Shiksha Samiti.

Shri Tapan Kumarji, Prant Sanghthan Mantri, Shri Maheshji (Pradesh Nireekshak) were among who graced the occasion

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में गोष्ठी



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध सरस्वती शिशु/ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैदनगली अमरोहा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आयोजित गोष्ठी में वंदना सत्र के पश्चात सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैदनगली अमरोहा के प्रधानाचार्य व विद्या भारती अमरोहा के जिला समन्वयक श्री दिवाकर पांडेय जी ने उपस्थित अधिकारियों व जनपद अमरोहा के 30 से अधिक इंटर कॉलेजों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों का परिचय कराया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विद्या भारती जनपद अमरोहा के जिला प्रमुख श्री अक्षि अग्रवाल जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा, मातृभाषा व स्थानीय भाषा में शिक्षण, शारिरिक व खेलकूद की महत्ता, कोडिंग की शिक्षा को अनिवार्य किये जाने के सम्बंध में विस्तार पूर्वक अपने विचार प्रस्तुत किये। मुख्य वक्ता श्री अक्षि अग्रवाल जी के सम्बोधन के पश्चात गोष्ठी के मुख्य अतिथि विद्या भारती की संस्कृति बोध परियोजना के क्षेत्र प्रमुख श्रीमान यशपाल सिंह जी ने अपने उद्बोधन में 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति को लागू करने का उद्देश्य, 10+2 की पुरानी पद्धति को समाप्त करने, 5+3+3+4 की नई पद्धति कक्षा 6 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम, क्रिया आधारित शिक्षण, संस्कारित शिक्षा इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट किए। सरस्वती शिशु / विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज सैदनगली अमरोहा की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष डॉ० पुनीत गुप्ता जी ने गोष्ठी की अध्यक्षता की। इस गोष्ठी में श्री संसार बहादुर जी प्रधानाचार्य (सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाई स्कूल हसनपुर) राकेश कुमार जी प्रधानाचार्य (चुन्नी लाल इंटर कॉलेज अंधेर पुरी) श्री सुरेश त्यागी जी (लोहारी भूड) श्री पिटू चौहान प्रधानाचार्य (लोहारी भूड) मोमराज सिंह प्रबंधक (रूपा नागल) श्री सुशील पोसवाल प्रधानाचार्य (ब्रह्माबाद), रोहताश कुमार लिपिक (सैद नगली) श्री फतेह सिंह सैनी प्रबंधक (ढबारसी) उमाशंकर गर्ग प्रधानाचार्य (सतपूरा) श्री पुनीत त्यागी प्रबंधक (कुंदरकी भूड), श्री मोमराज सिंह (उझारी) शिव नरेश जी उप प्रधानाचार्य (उझारी) श्री सत्येंद्र त्यागी जी प्रधानाचार्य (रहरा) श्री अशोक कुमार जी प्रधानाचार्य (रुखालू) श्री ईश्वर चंद प्रधानाचार्य (कुन्दरकी भूड) पवन कुमार प्रधानाचार्य (कुन्दरकी भूड) उपस्थित रहे। सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज सैदनगली अमरोहा के प्रधानाचार्य श्री दिवाकर पांडेय ने गोष्ठी में उपस्थित जनपद अमरोहा के विभिन्न इंटर कॉलेजों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों का धन्यवाद व आभार प्रकट किया।

नई शिक्षा नीति व पठन पाठन पुनः आरम्भ



Website: www.vidyabhartiup.org Email: vidyabhartiup@gmail.com Facebook: www.facebook.com/vidyabhartiup

सरस्वती शिशु/ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैदनगली अमरोहा विद्यालय व्यवस्था के अनुसार आज प्रथम दिन कक्षा 10 व 12 के भैया बहिनों के विद्यालय में उपस्थित होने से पूर्व सभी कक्षा कक्षों, विद्यालय परिसर व वाहनों को प्रधानाचार्य दिवाकर पांडेय जी के निर्देशन में सेनीटाइज कराया गया। इसके पश्चात विद्यालय के प्रवेश द्वार पर भैया बहिनों की थर्मल स्क्रीनिंग, अभिभावक सहमति पत्र, पानी की बोतल, हैंड वॉश, मास्क, सैनिटाइजर, का गंभीरतापूर्वक निरीक्षण किया गया। वंदना सत्र में सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कालेज सैदनगली के प्रधानाचार्य श्री दिवाकर पांडेय जी ने भैया बहिनो का स्वागत करते हुए सरकारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए मास्क, हैंड वाश, सैनिटाइजर, पानी की बोतल लाने का आग्रह करते हुए सावधान किया कि सुरक्षा की दृष्टि से अपना भोजन, पानी की बोतल, पाठ्य सामग्री का परस्पर आदान प्रदान न करें। आपको जो सीट दी गयी है उस निर्धारित स्थान पर ही बैठें, CCTV द्वारा आप सबकी गतिविधियों को देखा जाएगा। इस अवसर पर प्रधानाचार्य जी ने कक्षा 10 व 12 के सभी कक्षा प्रमुख व उप प्रमुख भैया बहिनों को इंटर वर्ग के वर्ग प्रमुख श्री संजीव जी प्रवक्ता भौतिकी विज्ञान, श्रीमती हितेश शर्मा जी, श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा #पुष्प गुच्छ#भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय व्यवस्था में प्रभावी और उत्तम व्यवस्था के लिए विद्यालय के आचार्य श्री गनपत जी व श्री हेम सिंह जी को भी पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

जिला प्रमुख एवं जिला समन्वयक बैठक



विद्या भारती मेरठ प्रान्त के जिला प्रमुख एवं जिला समन्वयकों की एक बैठक बालेराम ब्रजभूषण सशिम शास्त्रीनगर मेरठ में 31 अक्टूबर व 1 नवम्बर 2020 को सम्पन्न हुई, जिसमें आगामी योजना हेतु विभिन्न विषयों पर चर्चा वार्ता रही। बैठक में क्षेत्र संगठन मन्त्री मा डोमेश्वर जी व प्रान्त संगठन मन्त्री श्री तपन जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।



विद्यालय आरम्भ



बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, शास्त्रीनगर मेरठ में शासन, प्रशासन के आदेश पर 19 अक्टूबर से विद्यालय प्रारम्भ होने पर व नवरात्र प्रारम्भ होने पर हवन कराया गया। सभी शिक्षकों ने इसमें बद्ध-चढ़कर भाग लिया। सभी ने माँ दुर्गा का आह्वान किया कि माँ दुर्गा ऐसी बीमारी से समय सभी छात्र स्वस्थ रहें सभी के परिवार में सभी स्वस्थ रहें।

सत्र का शेष समय सही प्रकार से बीते। ऐसी माँ दुर्गा से कामना की गयी। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबन्धक डा0 विनोद कुमार अग्रवाल जी प्रधानाचार्य श्री कृष्ण कुमार शर्मा, श्री बी0के0 त्यागी, डा0 सुधानु अग्रवाल, श्री धर्मपाल गुप्ता, श्रीमती अलका गुप्ता आदि उपस्थित रहें।

कलाकार सम्मान

दिनांक :- 22.10.2020

प्रेस विज्ञप्ति

बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सैकेण्डरी स्कूल शास्त्रीनगर, मेरठ में मेरठ की प्रतिष्ठित कलाकार श्रीमती नीता गुप्ता को भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ उत्तर प्रदेश का सदस्य मनोनीत किये जाने पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष श्री मनमोहन गुप्ता, संचालक श्री आनन्द प्रकाश अग्रवाल, श्री अरुण जिनंदल (जिला प्रमुख), डा0 सुधानु अग्रवाल, प्रधानाचार्य श्री कृष्ण कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डा0 सोमनंद तोमर (विधायक, मेरठ दक्षिण क्षेत्र) रहे। उन्होंने बड़े देकर व पटका पहनाकर श्रीमती नीता गुप्ता जी का सम्मान किया। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुये श्री सोमनंद तोमर जी ने कहा कि "प्रत्येक व्यक्ति एक कलाकार होता है, आवश्यकता है समय पर अपनी प्रतिभा दिखाने का।" कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबन्ध समिति के प्रबन्धक डा0 विनोद कुमार अग्रवाल जी ने की।



इंस्पायर अवार्ड सम्मानित छात्राएं



भागवन्ती सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कालिज नयी मण्डी, मुजफ्फरनगर के 18 छात्र-छात्राओं का चयन इंस्पायर स्कीम के लिए हुआ है। स्कीम में छात्र-छात्राओं को बी0एस0सी0 एवं एम0एस0सी0 करने पर ही पांच वर्ष तक 80 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

ई पत्रिका विमोचन



दिनांक अक्तूबर को 1भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर की ई पत्रिका का विमोचन हुआ। इस पत्रिका में अगस्त और सितंबर माह में विद्यालय में हुई समस्त गतिविधियों की जानकारी दी हुई होती है। इस अवसर पर आचार्या श्रीमती राज शर्मा एवं आचार्या प्रिया सिंह जी ने प्रधानाचार्य जी के द्वारा पत्रिका का विमोचन करवाया। आचार्या पारूल जी भी इस अवसर पर उपस्थित थी। इस बार की पत्रिका का स्वरूप एकदम नया तथा आकर्षक था।

सुरक्षा मानकों के साथ खुला स्कूल



उत्तर प्रदेश सरकार के दिए गए सुरक्षा निर्देशों के अनुसार भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में समस्त सुरक्षा इंतजाम पूरे करके विद्यालय को पुनः खोला गया। प्रधानाचार्य श्री केशव कुमार शर्मा जी के मार्गदर्शन में सभी आचार्य एवं आचार्याओं ने भैया/बहनों की थर्मल स्क्रीनिंग एवं सेनेटाईजर करके ही विद्यालय में प्रवेश दिया।

कबाड़ से जुगाड़



भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में भैया बहनों को घर में बेकार पड़ी वस्तुओं से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रेरणा दी गई जिसके परिणाम स्वरूप भैया बहनों ने घर में पड़ी बेकार वस्तुओं से कई उपयोगी सामान बनाया जैसे किसी ने पक्षी के लिए घर किसी ने पेन रखने का होल्डर तथा किसी ने 1 बच्चों की खेलने की गाड़ी बनाई इस प्रकार भैया बहनों ने बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं बनाई दीवार पर सजाने की वस्तुएं बनाई फोटो फ्रेम बनाएं यह गतिविधि भैया बहनों की रचनात्मकता को बढ़ाता है।

विभिन्न जयंती कार्यक्रम

(महात्मा गाँधी , लाल बहादुर शास्त्री, महर्षि वाल्मीकि , महाराजा अग्रसेन)



सरस्वती विद्या मंदिर नॉण्डा में महर्षि बाल्मीकि जी की जयंती मनाते हुए ।

महर्षि वाल्मीकि जयंती व सरदार पटेल जयंती का कार्यक्रम वंदना सत्र में मनाया

विभाला वाकरी

सैद नंगली विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध सरस्वती शिशु/ विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैदगली अमरोहा में आज शनिवार को महर्षि वाल्मीकि जयंती व सरदार पटेल जयंती का कार्यक्रम वंदना सत्र में मनाया गया।

महर्षि वाल्मीकि जयंती कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आचार्य श्री अर्जुन जी ने महर्षि वाल्मीकि के जीवन परिचय तथा उनके क्रियाकलाप, हृदय परिवर्तन तथा आदि कवि बनने के प्रसंगों को अपने विचारों द्वारा प्रस्तुत किया।

स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री जितेंद्र जी आचार्य ने सरदार पटेल के बाल्यकाल के अदम्य साहस की घटना, उनकी शिक्षा, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सरदार पटेल के



सहयोग, बायोटेनी किसान आंदोलन, किसानों के हितों, देशी रियासतों के भारतीय गणराज्य में विलय करने की नीति, योजनाओं को हृदयपूर्वक लागू करने की इच्छाओं इत्यादि विदुओं पर विस्तारपूर्वक विचार प्रस्तुत किए।

अध्यक्षीय सम्बोधन में आचार्य परिवार तथा भैया - बहिनो को शरद पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम का महत्व बताते हुए शत्रुपरिवर्तन पर चर्चा की, महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार पटेल जयंती के विषय में प्रमुख बिंदुओं से अवगत करते हुए इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ग्रहण करने का आग्रह किया।



सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, शामली में महर्षि वाल्मीकि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जयन्ती का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ समस्त विद्यालय परिवार के साथ मनाया गया।



केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई मुख्य वक्ता रमेश चंद शर्मा और उसका संचालन श्री कृष्ण शर्मा जी ने किया सभी आचार्य बंधु इस में उपस्थित हुए विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्री सुरेश चंद गुप्ता जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पृष्ठा अर्चन किया।



भागवती सरस्वती बालिका विद्या मंदिर मुजफ्फरनगर

सरस्वती शिशु मंदिर, साहिबाबाद



सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नगली अमरोहा



सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालिज, शामली



सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालिज, गुलाबवाड़ी, मुरादाबाद



दयावती दीवाल सिंह शुक्ल , सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालिज, सिकंदराबाद

आजाद हिन्द फ़ौज स्थापना दिवस



सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कालिज, शामली

सरस्वती विद्या मन्दिर इण्टर कॉलेज सैद नगली अमरोहा

मिशन शक्ति



21.10.2020 छ भागवन्ती सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कालिज नयी मण्डी, मुजफ्फरनगर में मिशन शक्ति (नारी एक रूप अनेक) के अन्तर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके मुख्य अतिथि श्रीमान गजेन्द्र कुमार (जिला विद्यालय निरीक्षक, मुजफ्फरनगर) तथा डा0 ब्रिजेश कुमार प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कालिज, मुजफ्फरनगर द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख पुष्पार्चन एवं दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। जिसका संचालन विद्यालय की आचार्या श्रीमती नीरा शर्मा द्वारा किया गया। इसके उपरान्त विद्यालय की प्रधानाचार्या डा0 सुनीता गौड ने मंचासीन अतिथिगणों का परिचय कराया तथा विद्यालय के आचार्य श्री नीशू कौशिक जी द्वारा मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र एवं श्रीफल देकर विद्यालय आगमन पर उनका स्वागत किया गया।

17-10-2020 | मिशन शक्ति, नई शिक्षा नीति व पठन पाठन पुनः आरम्भ होने विषयों पर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक का आयोजन हुआ।

मुजफ्फरनगर के लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में आयोजित बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आलोक यादव ने कहा कि सभी प्रधानाचार्य विद्यालय परिसर में और उसके आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई व स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए पठन पाठन सुव्यवस्थित रूप में कराए, विद्यालय में एक स्वस्थ व भयमुक्त वातावरण बच्चों को दे। अभिभावकों से मिलकर ऐसे कार्य करे जिससे बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित हो।

सयुक्त शिक्षा निदेशक सहारनपुर आर पी शर्मा ने कहा कि प्रधानाचार्य अपने विद्यालय में अभिभावक की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही छात्र छात्राओं को प्रवेश दे, प्रत्येक बालक, अध्यापक व कर्मचारी की थर्मल स्केनिंग कराए, किसी भी परिस्थिति में गेट पर टॉयलेट आदि स्थानों पर बच्चे एकत्र ना हो।



27-10-2020 | महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, भागवन्ती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कालिज, मुजफ्फरनगर

Website: www.vidyabhartiup.org Email: vidyabhartiup@gmail.com Facebook: www.facebook.com/vidyabhartiup

पूर्व छात्र बैठक



साधारण सभा - जन शिक्षा समिति



दिनांक - 31 अक्टूबर 2020 को विद्या मन्दिर हस्तिनापुर मेरठ में जन शिक्षा समिति की साधारण सभा बैठक हुई। बैठक में श्री तपन जी (प्रान्त संगठन मंत्री) जी का सानिध्य मिला। लॉक डाउन काल खण्ड में ऑनलाइन शिक्षण पर चर्चा, शैक्षिक उन्नयन की दृष्टि से विचार, श्रीमान तपन जी ने सदन के सम्मुख विषय रखते हुए बताया की प्रत्येक आचार्य प्रधानाचार्य को कंप्यूटर लिटरेसी का बेसिक ज्ञान होना ही चाहिए। सभी के फोन में दिक्षा App होनी चाहिए।



विश्व शिक्षक दिवस



विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नगली अमरोहा में आज 5 अक्टूबर 2020 को विश्व शिक्षक दिवस का कार्यक्रम उत्साह पूर्वक मनाया गया। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैदनगली अमरोहा के प्रधानाचार्य श्री दिवाकर पांडेय जी ने मंच पर उपस्थित प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का परिचय कराया। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉ पुनीत गुप्ता जी व प्रबंधक श्री अशोक पैसल जी का सान्निध्य प्राप्त हुआ। प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉ पुनीत गुप्ता जी ने आचार्य परिवार को विश्व शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के वर्तमान समय में आचार्य परिवार के द्वारा विद्यालय में ऑनलाइन शिक्षण, शुल्क सम्बन्धी, अभिभावक संपर्क, my nep competition हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आप सब भविष्य में भी इसी प्रकार तत्परता से कार्य करते रहेंगे। अध्यक्ष जी ने आचार्य परिवार से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर, का निरंतर उपयोग करते रहने का भी आग्रह किया। विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक अशोक पैसल जी ने समस्त आचार्य परिवार से आग्रह किया कि विद्यालय की छवि को सर्वोपरि रखते हुए, अपनी संघर्ष क्षमता को ऊंचा रखते हुए इसी प्रकार निष्ठा पूर्वक कार्य करते रहें। इस अवसर पर विद्यालय में नवीन पुस्तकालय का शुभारंभ माननीय अध्यक्ष पुनीत गुप्ता जी व प्रबंधक महोदय श्री अशोक पैसल जी द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रबंध समिति के उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा आचार्य परिवार व पत्रकार अंकुर बाज जी व मुजम्मिल हुसैन को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नगली अमरोहा के प्रधानाचार्य श्री दिवाकर पांडेय जी ने कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों व समस्त आचार्य परिवार का धन्यवाद व आभार प्रकट किया।

SESQ ASSESSMENT SCHOOLS



दशहरा पर्व



सरस्वती विद्या मन्दिर. सैद नंगली.अमरोहा



बालिका विद्या मन्दिर. मजफ्फरनगर

विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सैद नगली अमरोहा में वंदना सत्र के पश्चात नवरात्रि उत्सव के अंतर्गत मां दुर्गा अष्टमी, महानवमी, विजयादशमी, शस्त्र पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री राजवीर सिंह जी ने नवरात्र उत्सव दुर्गा अष्टमी, महानवमी व अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक उत्सव विजयदशमी की कथा को विस्तार पूर्वक अपने शब्दों में प्रस्तुत किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान दिवाकर पांडेय जी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में देवी दुर्गा के नौ रूपों की चर्चा करते हुए समाज की सुरक्षा के लिये मां दुर्गा द्वारा महिषासुर राक्षस के वध के लिये किये गए संघर्ष व विजय दशमी से सम्बंधित रामायण व महाभारत काल की घटनाओं को प्रकट करते हुए पौराणिक घटनाओं व धर्म के प्रति सकारात्मक सोच बनाये रखने का आग्रह किया। प्रधानाचार्य श्री दिवाकर पांडेय जी ने विजयदशमी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना, शस्त्र पूजन दिवस के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य श्री दिवाकर पांडेय जी ने विद्यालय में उपस्थित भैया बहिनों व समस्त आचार्य परिवार को दुर्गा अष्टमी महानवमी, विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी। प्रान्त के अनेको विद्यालय में रामनवमी व दशहरा का कार्यक्रम बड़ी धूम धाम से मनाया गया।



सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज. शामली